



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351
No. 351

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 1978/ अग्रहायण 13, 1900

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 1978/AGRAHAYANA 13 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विप्रेरा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1978

सां. कां. निं. 569(घ):—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (चौथा संशोधन) नियम, 1978 कहलायेंगे।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 (जिनका उल्लेख एतदोपरान्त कथित नियम कहकर किया गया है) के नियम 6 के प्रथम परन्तुक में धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, यथा:—

“(1) संसद् सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्य अथवा महानगर परिषद्, जिल्लों के सदस्य अथवा सरकार के किसी अधिकारी से जिसका दर्जा भारत सरकार के उप सचिव से नीचा न हो अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;”

3. कथित नियमों के नियम 10 के परन्तुक के उपनियम (1) में अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, यथा:—

“और भारत-श्री लंका पासपोर्ट जारी होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेगा।”

4. कथित नियमों के नियम 16 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, यथा:—

“17. उल्लिखित विदेश-खंड 5 के उप-खंड (1) की व्याख्या के उद्देश्य से नीचे लिखा प्रत्येक देश “उल्लिखित विदेश” होगा, यथा:—

- (क) बंगला देश; और
- (ख) श्री लंका।”

5. कथित नियमों से संलग्न अनुसूची-III में, फार्म ईए (पी)-1 में "सत्यापन प्रमाणपत्र" शीर्षक के अन्तर्गत "केतावनी" शब्द के शुरू होकर "प्रथम श्रेणी" शब्द और कोष्ठक पर समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, यथा :—

"केतावनी" यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस पर अच्छी तरह सोच विचार के हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। इस पर संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्य अथवा महानगर परिषद्, दिल्ली के सदस्य अथवा सरकार के किसी अधिकारी जिसका वर्ण भारत सरकार के उपसचिव से भीचा न हो अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिए।"

6. कथित नियमों से संलग्न अनुसूची V के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा :—

"अनुसूची-V"

(देखें नियम 7)

पासपोर्ट तथा यात्रा-दस्तावेजों के आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में देय फीस की अनुसूची ।

क्रम संख्या	आवेदन पत्र का विवरण	शुल्क की दर	
		भारत	विदेश
		श्रेणी "क" के देश (कृपया अंत में दी गई टिप्पणी 2 देखें)	श्रेणी "ख" के देश
1	2	3	4
1.	साधारण पासपोर्ट जिसकी प्रारम्भिक वैधता अधिक से अधिक पांच वर्ष होगी ।	50 रु० 50 रु०	50 रु०
2.	साधारण पासपोर्ट का नवीकरण	5 वर्ष के लिये 50 रु०, अथवा एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिये 10 रुपये	
3.	साधारण पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने, खराब हो जाने, नष्ट हो जाने पर या ऐसे ही किसी अन्य कारण के आधार पर उसके बदले में दूसरा पासपोर्ट जारी करना	50 रु०	50 रु० 50 रु०
4.	आपातकालीन प्रमाणपत्र जिसकी प्रारम्भिक वैधता छह मास हो	—	15 रु० 10 रु०
5.	आपातकालीन प्रमाणपत्र का नवीकरण (एक बार में तीन-तीन महीने के दो नवीकरण)	—	7.25 रु० 5 रु०
6.	आपातकालीन प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, खराब हो जाने, नष्ट हो जाने पर उसके बदले दूसरा आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करना	—	15 रु० 10 रु०
7.	पहचान प्रमाणपत्र जिसकी अधिकतम प्रारम्भिक वैधता दो वर्ष हो	20 रु०	30 रु० 20 रु०
8.	पहचान प्रमाणपत्र का नवीकरण (एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिये दो वर्ष तक)	10 रु०	15 रु० 10 रु०
9.	पहचान पत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, खराब हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसके बदले दूसरा पहचान प्रमाणपत्र देना	20 रु०	30 रु० 20 रु०
10.	(1) साधारण पासपोर्ट पर अतिरिक्त पृष्ठांकन अथवा विविध सेवा	10 रु०	30 रु० 20 रु०
	(2) साधारण पासपोर्ट के सभी पृष्ठ भर जाने पर उसमें पूरक पुस्तिका जोड़ना	10 रु०	15 रु० 10 रु०
	(3) आपातकालीन प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन अथवा विविध सेवा	—	7.25 रु० 5 रु०
	(4) पहचान प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन अथवा विविध सेवा	10 रु०	15 रु० 10 रु०
11.	भारत और बंगलादेश के बीच यात्रा के लिए भारत-बंगलादेश पासपोर्ट जिसकी प्रारम्भिक वैधता अधिकतम तीन वर्ष हो	15 रु०	— 15 रु० (बंगला देश में)
12.	भारत-बंगलादेश पासपोर्ट का नवीकरण	3 वर्ष के लिए 15 रु० अथवा एक वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए 5 रु०	— 3 वर्ष के लिए 15 रु० अथवा एक वर्ष और उससे कम अवधि के लिए 5 रु० (बंगला देश में)

(1)	(2)	(3)	(4)
13. भारत-बंगलादेश पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने, खराब हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर दूसरा भारत-बंगलादेश पासपोर्ट जारी करना	15 रु०	—	15 रु० (बंगला देश में)
14. भारत-बंगलादेश पासपोर्ट पर विविध सेवा	5 रु०	—	5 रु० (बंगला देश में)
15. भारत-बंगलादेश पासपोर्ट के सभी पृष्ठ भर जाने पर नई पुस्तिका जारी करना	10 रु०	—	10 रु० (बंगला देश में)
16. भारत-श्री लंका पासपोर्ट जिसकी प्रारम्भिक वैधता अधिकतम चार वर्ष हो	8 रु०	—	8 रु० (श्री लंका में)
17. भारत-श्री लंका पासपोर्ट का नवीकरण	चार वर्ष के लिए 8 रु० अथवा एक वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए 2 रु०	—	चार वर्ष के लिए 8 रु० अथवा एक वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए 2 रु० (श्री लंका में)
18. भारत-श्री लंका पासपोर्ट पर विविध सेवा	20 रु०	—	2 रु० (श्री लंका में)
19. भारत-श्री लंका पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने, खराब हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर दूसरा भारत-श्री लंका पासपोर्ट जारी करना	8 रु०	—	8 रु० (श्री लंका में)
20. भारत-श्री लंका पासपोर्ट के सारे पृष्ठ भर जाने पर नया भारत-श्री लंका पासपोर्ट जारी करना	5 रु०	—	5 रु० (श्री लंका में)
21. इजराइल के लिए विशेष पासपोर्ट जिसकी प्रारम्भिक वैधता अधिक से अधिक एक वर्ष हो	10 रु०	10 ¹ रु०	10 रु०
22. इजराइल के लिए विशेष पासपोर्ट की वैधता बढ़ाना	एक वर्ष अथवा उससे कम किसी अवधि के लिए 10 रु० कुल दस वर्ष की अवधि तक।		

टिप्पणी:—1. जब कभी भी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज प्रारम्भ में निर्धारित अवधि से कम समय के लिए जारी किया जाएगा तो ऐसी निर्धारित अवधि तक उसकी वैधता निःशुल्क बढ़ाई जाएगी।

2. श्रेणी 'क' के देश हैं:—

(क) उत्तर और दक्षिण अमरीका के सभी देश

(ख) सोवियत समाजवादी गणतन्त्र सहित यूरोप के सभी देश

(ग) पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के सभी देश (यमन लोकजन गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, सूडान और सोमालिया को छोड़ कर)

(घ) ब्राज़ीलिया, न्यूजीलैण्ड, जापान, हांगकांग और सिंगापुर

श्रेणी 'ख' के देश हैं:—

सभी देश श्रेणी 'क' में उल्लिखित देशों को छोड़कर।

7. कथित नियमों से संलग्न अनुसूची VI के स्थान पर अंत में नीचे लिखा फॉर्म जोड़ा जायेगा, यथा:—

“भारत-श्री लंका पासपोर्ट का फॉर्म”

(मुख-पृष्ठ)

भारत-श्री लंका पासपोर्ट

भारत गणराज्य

हमके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की पहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

में

की

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।

(पृष्ठ 1)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।

भारत सरकार

पासपोर्ट

यह पासपोर्ट केवल भारत और श्री लंका के बीच सीधी यात्रा के लिये वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देश की यात्रा करने के लिये न किया जाए।

पासपोर्ट का नं० _____

वाहक का नाम _____

भारत/श्री लंका में स्थायी पता

गांव या कस्बा _____

थाना _____

जिला _____ राज्य _____ प्रांत _____

साथ है _____ बच्चे _____

राष्ट्रिकता

(पृष्ठ 2)

विवरण

व्यवसाय _____

जन्म-स्थान और

जन्म की तारीख _____

अधिवास _____

कद _____ मि _____ से० मी०

आँखों का रंग _____

बालों का रंग _____

पहचान के

प्रकट चिन्ह _____

पिता का नाम _____

और उसका पता _____

यदि महिला विवाहित अथवा विधवा है, तो उसके पति का नाम और पता

बच्चे

नाम

जन्म की तारीख

लड़का/लड़की

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(पृष्ठ 3)
बाहक का फोटो
कोटो

बाहक के हस्ताक्षर

टिप्पणी

(पृष्ठ 4)

अवधि बढ़ायी न जाये तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

नवीकरण

(पृष्ठ 5)

नवीकरण

(पृष्ठ 6 से 16)

बीजा

(पृष्ठ 17 से 31)

पृष्ठांकन

(पृष्ठ 32)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल श्री लंका की यात्रा के लिये है।
2. इस पासपोर्ट के अपने पास होने से, बाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्री लंका के बीजा तथा आप्रवास विनियमों और भारत के परावास विनियमों का पालन न करे।
3. (1) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिये अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।
(2) पन्द्रह साल से कम उम्र के बच्चे, माता या पिता के पासपोर्ट में, जितके भी साथ वे जा रहे हों, शामिल किये जा सकेंगे।
4. पासपोर्ट की वसं मान वैधता की समाप्ति के बाद उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।
5. जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देश की पासपोर्ट डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाये या मष्ट हो जाये तो इस बात की और उसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी" को या यदि पासपोर्ट-धारी श्री लंका में हो तो भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।
2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की बदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत् अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के प्रतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।
3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है। ऐसी सूचना में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे।
4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिये उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे।

(पिछले आवरण पृष्ठ के अंदर)

विनियम (अंग्रेजी में)

चेतावनी (अंग्रेजी में)

(क्रम VI/401/22/78)

के० डी० पार्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1978

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Fourth Amendment) Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the first proviso to rule 6 of the Passports Rules, 1967 (hereinafter referred to as the said rules), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

“(i) furnishes a certificate from a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly of a State or Union Territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi, or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government or a Magistrate of the First Class;”
3. In the proviso to sub-rule (1) of rule 10 of the said rules, the following words shall be inserted at the end, namely :—

“and an India-Sri Lanka Passport shall continue in force for a period of four years from the date of its issue.”
4. After rule 16 of the said rules the following rule shall be inserted, namely :—

“17. Named foreign country—Each of the following countries shall be a ‘named foreign country’ for the purpose of the Explanation to sub-section (1) of section 5, namely :—

 - (a) Bangladesh; and
 - (b) Sri Lanka.”
5. In Schedule III appended to the said rules, in Form EA(P)-1, under the heading “Verification Certificate” for the portion beginning with the word “caution” and ending with the words and bracket “First Class”, the following shall be substituted, namely :—

“Caution : This is an important document and should be signed after due consideration (To be signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly of a State or Union territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi, or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government or a Magistrate of the First Class).”
6. For Schedule V appended to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“Schedule V

(See rule 7)

Schedule of fees payable in respect of applications for passports and travel documents

S. No.	Particulars of application	Scale of fees		
		India	Cat. 'A' countries	Abroad Cat. 'B' countries (Please see note 2 at the end)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ordinary passport with a maximum initial validity of five years	Rs. 50/-	Rs. 50/-	Rs. 50/-
2.	Renewal of ordinary passport	Rs. 50/- for five years or Rs. 10/- per year or part thereof.		
3.	Issue of duplicate passport in lieu of the ordinary passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other such reason	Rs. 50/-	Rs. 50/-	Rs. 50/-
4.	Emergency Certificate with an initial validity of six months	—	Rs. 15/-	Rs. 10/-
5.	Renewal of Emergency Certificate (two renewals for three months at a time)	—	Rs. 7.25	Rs. 5/-
6.	Duplicate Emergency Certificate in lieu of the Emergency Certificate that has been lost, stolen, damaged or destroyed	—	Rs. 15/-	Rs. 10/-
7.	Certificate of Identity with a maximum initial validity of two years	Rs. 20/-	Rs. 30/-	Rs. 20/-
8.	Renewal of Certificate of Identity. (Per year or part thereof for two years).	Rs. 10/-	Rs. 15/-	Rs. 10/-
9.	Duplicate Certificate of Identity in lieu of the Certificate of Identity that has been lost, stolen, damaged, or destroyed	Rs. 20/-	Rs. 30/-	Rs. 20/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. (i) Additional endorsement or miscellaneous service on ordinary passport	Rs. 10/-		Rs. 30/-	Rs. 20/-
(ii) Adding supplementary booklet when all the pages in an existing ordinary passport are used up	Rs. 10/-		Rs. 15/-	Rs. 10/-
(iii) Additional endorsement or miscellaneous service on an Emergency Certificate	—		Rs. 7.25	Rs. 5/-
(iv) Additional endorsement or miscellaneous service on a Certificate of Identity	Rs. 10/-		Rs. 15/-	Rs. 10/-
11. India-Bangladesh passport for travel between India and Bangladesh with a maximum initial validity of three years	Rs. 15/-		—	Rs. 15/- (In Bangladesh)
12. Renewal of India-Bangladesh passport	Rs. 15/- for 3 years or Rs. 5/- per year or part thereof.		—	Rs. 15/- for 3 years or Rs. 5/- per year or part thereof. (In Bangladesh)
13. Issue of a duplicate passport in lieu of the India-Bangladesh passport which has been lost, stolen, damaged or destroyed	Rs. 15/-		—	Rs. 15/- (In Bangladesh)
14. Miscellaneous services on an India-Bangladesh passport	Rs. 5/-		—	Rs. 5/- (In Bangladesh)
15. Issue of a new booklet when all the pages in an existing India-Bangladesh passport are exhausted	Rs. 10/-		—	Rs. 10/- (In Bangladesh)
16. India-Sri Lanka passport with a maximum initial validity of four years	Rs. 8/-		—	Rs. 8/- (In Sri Lanka)
17. Renewal of India-Sri Lanka passport	Rs. 8/- for four years or Rs. 2/- per year or part thereof.		— or Rs. 2/- per year	Rs. 8/- for four years or Rs. 2/- per year or part thereof. (In Sri Lanka)
18. Miscellaneous services on India-Sri Lanka passport	Rs. 2/-		—	Rs. 2/- (In Sri Lanka)
19. Issue of fresh India-Sri Lanka passport in lieu of one lost, stolen, damaged or destroyed	Rs. 8/-		—	Rs. 8/- (In Sri Lanka)
20. Issue of new India-Sri Lanka passport when all pages in existing passport are exhausted	Rs. 5/-		—	Rs. 5/- (In Sri Lanka)
21. Special passport for Israel upto initial validity of one year	Rs. 10/-		Rs. 10/-	Rs. 10/-
22. Extension of validity of Special passport for Israel	Rs. 10/- per year or part thereof upto a total period of ten years.			

NOTE :—1. Wherever a passport or travel document has been issued initially for a lesser period than the prescribed period, further extension upto such prescribed period shall be given gratis.

2. Category 'A' countries are :

- all countries in North and South America;
- all countries in Europe including U.S.S.R.;
- all countries in West Asia and North Africa (excluding People's Democratic Republic of Yemen, Yemen Arab Republic, Sudan and Somalia);
- Australia, New Zealand, Japan, Hongkong and Singapore.

Category 'B' countries are :

All countries excluding countries mentioned under category 'A'."

7. In schedule VI appended to the said rules, the following Form shall be inserted at the end, namely :—

"FORM OF INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(Front Cover)

INDIA-SRI LANKA PASSPORT

Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....
the day
of19....

By order of the President of the Republic

(Page 1)

This Passport contains 32 pages.

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country

No. of Passport

Name of Bearer

Permanent Address in India/Sri Lanka

Village or Town

Police Station

District

Accompanied by

State

NATIONAL STATUS

Province

Children

(Page 2)

DESCRIPTION

Profession

Place and Date of Birth

Domicile

Height m. cm.

Colour of eyes

Colour of hair

Visible distinguishing marks

Name of father and his address

If married lady or a widow name and address of husband

CHILDREN

Name	Date of birth	Male/Female
1.		
2.		
3.		
4.		

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER
PHOTO

Signature of bearer

OBSERVATIONS

(Page 4)

Unless renewed the validity of this Passport expires on

RENEWALS

(Page 5)

RENEWALS

(Pages 6 to 16)

VISAS

(Pages 17 to 31)

ENDORSEMENTS

(Page 32)

REGULATION (in Hindi)

CAUTION (in Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

1. This Passport is only available for travel to Sri Lanka.
2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the emigration regulations of India.
3. (i) A separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;
(ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.
4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
5. This Passport should not be sent out of the country of residence by post.

CAUTION

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DUTY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY."

[No. VI/401/22/78]

[No. VI/401/58/78]

K. D. SHARMA, Joint Secy.

866 G1/78—2.

